



नृत्यग्रेव जयते

आयुक्त(अपील)का कार्यालय,
Office of the Commissioner (Appeal),

केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय, अहमदाबाद
Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad
जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.
CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015
07926305065 - टेलिफैक्स 07926305136



DIN: 20230964SW0000211946

स्पीड पोस्ट

- क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STP/3204/2023 /6150-SK
- ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-123/2023-24
दिनांक Date : 15-09-2023 जारी करने की तारीख Date of Issue 20.09.2023
आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals)
- ग Arising out of OIO No. 138/WS08/AC/KSZ/2022-23 दिनांक: 15.12.2022 passed by The Assistant Commissioner, CGST, Div-VIII, Ahmedabad South.
- घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

Appellant

M/s. Rushabh Consultants,
1001, Venus Atlantis,
Anandnagar Road, Prahaladnagar,
Ahmedabad-380061.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :


Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.



(क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रु.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- 1प सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट),के प्रतिअपीलो के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है।(Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

- a. (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
इप लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
बप सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है.


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL


The present appeal has been filed by M/s. Rushabh Consultants, 1001, Venus Atlantis, Anandnagar Road, Prahaladnagar, Ahmedabad – 380061 (hereinafter referred to as “the appellant”) against Order-in-Original No. 138/WS08/AC/KSZ/2022-23 dated 15.12.2022 issued on 16.12.2022 (hereinafter referred to as “the impugned order”) passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division VIII, Ahmedabad South (hereinafter referred to as “the adjudicating authority”).

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant were holding Service Tax Registration No. AAEFR1447CST001. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the Financial Year 2015-16, it was noticed that there is difference of value of service amounting to Rs. 30,09,488/- between the gross value of service provided in the said data and the gross value of service shown in Service Tax return filed by the appellant for the FY 2015-16. Accordingly, it appeared that the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but not paid the applicable service tax thereon. The appellant were called upon to submit clarification for difference along with supporting documents, for the said period. However, the appellant had not responded to the letters issued by the department.


2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice No. CGST/WS0801/O&A/TPD(15-16)/AAEFR1447C/2020-21/5373 dated 21.12.2020 demanding Service Tax amounting to Rs. 4,36,375/- for the period FY 2015-16, under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994. The SCN also proposed recovery of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994; and imposition of penalties under Section 77 and Section 78 of the Finance Act, 1994.

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated, ex-parte, vide the impugned order by the adjudicating authority wherein the demand of Service Tax amounting to Rs. 4,36,375/- was confirmed under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 along with Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period FY 2015-16. Further (i) Penalty of Rs. 4,36,375/- was imposed on the appellant under Section 78 of the Finance Act, 1994; and (ii) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under Section 77(2) of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal, along with the application for condonation of delay, inter alia, on the following grounds:



- The Assistant Commissioner of Central Tax Audit, Circle-IV, Ahmedabad conducted the service tax audit of the appellant for the period of 2012-13 to 2016-17 vide Final Audit Report No.1397/2017-18 dated 23.03.2018.
- In the said service tax audit report, all the revenue paras were settled and no further demand raised in the said audit report. The appellant submitted that once the department had conducted the service tax audit in detail for the period of 2015-16 wherein there was no demand raised, then afterwards the demand of the service tax for the same period is not sustainable in the interest of law & justice. The appellant submitted the copy of said service tax audit report along with appeal memorandum.
- When the department had already conducted service tax audit of the year 2015-16, the demand of service tax for the impugned period on the basis of income tax return data is not sustainable.
- The appellant submitted that the department has computed demand of service tax for the period of 2015-16 on the basis of income tax return data. The department has not taken into factual details regarding the service tax audit already conducted by the department wherein no such short payment of service tax was noticed. Without considering the factual details, the department has raised the demand which is not justifiable at all.
- The show cause notice covers the period of 01.04.2015 to 31.03.2016. The show cause notice has been issued on 21.12.2020. Thus, the show cause notice has invoked the extended period of limitation. The show cause has baldly alleged that the appellant has suppressed the information from the department. The appellant submitted that the appellant is filing income tax returns & service tax returns regularly from time to time. The appellant submitted that the extended period of limitation cannot be invoked in the present case since there is no suppression, wilful misstatement on the part of the appellant.
- The present case is not the case of fraud, suppression, wilful misstatement of facts, etc. Hence penalty under section 78 of the Act cannot be imposed.
- As per the merits of the case, the appellant is not liable for payment of Service tax. Since there is no short payment of service tax, the penalty under Section 77 is not imposable.




4. On going through the appeal memorandum, it is noticed that the impugned order was issued on 16.12.2022 and received by the appellant on 21.12.2022. However, the present appeal, in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994 was filed on 17.03.2023, i.e. after a delay of 24 days from the last date of filing of appeal. The appellant have along with appeal memorandum also filed an Application seeking condonation of delay stating that the accountant of the appellant had not given data in time and there is delay in filing of appeal.

4.1 Before taking up the issue on merits, I proceed to decide the Application filed seeking condonation of delay. As per Section 85 of the Finance Act, 1994, an appeal should be filed within a period of 2 months from the date of receipt of the decision or order passed by the adjudicating authority. Under the proviso appended to sub-section (3A) of Section 85 of the Finance Act, 1994, the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay or to allow the filing of an appeal within a further period of one month thereafter if, he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the period of two months. Considering the cause of delay given in application as genuine, I condone the delay of 24 days and take up the appeal for decision on merits.

4.2 Personal hearing in the matter was held on 01.09.2023. Shri Vipul Khandhar, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellant and reiterated submissions made in the appeal. He submitted that the impugned order has been passed ex-parte without any verification merely on the basis of income shown in the ITR data. The appellant was subjected to audit by the department and the audit report for the period 2012-13 to 2016-17 is attached. The appellant had also filed ST-03 return which was not taken note by the adjudicating authority. As the demand is fully discharged he requested to set aside the impugned order.

5. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority, confirming the demand of service tax against the appellant along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period FY 2015-16.



6. It is observed that the main contention of the appellant is that when the department had already conducted service tax audit of the year 2015-16, the demand of service tax for the impugned period on the basis of income tax return data is not sustainable.


6.1 It is also observed that the adjudicating authority has confirmed the demand of service tax vide the impugned order passed ex-parte.

7. I find that in the SCN in question, the demand has been raised for the period FY 2015-16 based on the Income Tax Returns filed by the appellant. Except for the value of "Sales of Services under Sales / Gross Receipts from Services" provided by the Income Tax Department, no other cogent reason or justification is forthcoming from the SCN for raising the demand against the appellant. It is also not specified as to under which category of service the non-levy of service tax is alleged against the appellant. Merely because the appellant had reported receipts from services, the same cannot form the basis for arriving at the conclusion that the respondent was liable to pay service tax, which was not paid by them. In this regard, I find that CBIC had, vide Instruction dated 26.10.2021, directed that:

"It was further reiterated that demand notices may not be issued indiscriminately based on the difference between the ITR-TDS taxable value and the taxable value in Service Tax Returns.

3. It is once again reiterated that instructions of the Board to issue show cause notices based on the difference in ITR-TDS data and service tax returns only after proper verification of facts, may be followed diligently. Pr. Chief Commissioner /Chief Commissioner (s) may devise a suitable mechanism to monitor and prevent issue of indiscriminate show cause notices. Needless to mention that in all such cases where the notices have already been issued, adjudicating authorities are expected to pass a judicious order after proper appreciation of facts and submission of the noticee."

7.1 In the present case, I find that letters were issued to the appellant seeking details and documents, which were allegedly not submitted by them. However, without any further inquiry or investigation, the SCN has been issued only on the basis of details received from the Income Tax department, without even specifying the category of service in respect of which service tax is sought to be levied and collected. This, in my considered view, is not a valid ground for raising of demand of service tax, specifically in the present case, where the appellant is already registered with the service tax department, filed their ST-3 Returns regularly and Audit of the books of account of the appellant already concluded by the departmental audit officer for the relevant period.




8. On verification of the Final Audit Report No. 1397/2017-18 dated 23.03.2018, I find that the audit of the books of account of the appellant already conducted and concluded for the period FY 2012-13 to FY 2016-17. I also find that there are three Revenue Paras in the said FAR. The appellant agreed with the said objections and paid the amount detected by the audit along with interest and penalty during the course of audit. Thus, the said paras also settled by the audit.

9. In view of the above, I am of the considered view that when the audit of the financial records of the appellant has already been conducted for the period under dispute and the appellant had paid the required service tax for the FY 2015-16, the present show cause notice for the FY 2015-16 is not legally sustainable and is deemed to be concluded. The impugned order confirming the demand of service tax on the basis of present show cause notice is also required to be set aside. Since the demand of service tax is not sustainable on merits, there does not arise any question of charging interest or imposing penalties in the case.

10. Accordingly, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant.


11. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.


(Shiv Pratap Singh)
Commissioner (Appeals)

Date : 15/9-23

Attested


Superintendent(Appeals),
CGST, Ahmedabad



By RPAD / SPEED POST

To,
M/s. Rushabh Consultants,
1001, Venus Atlantis,
Anandnagar Road, Prahaladnagar,
Ahmedabad – 380061

Appellant

The Assistant Commissioner,
CGST, Division-VIII,
Ahmedabad South

Respondent

Copy to :

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- 2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad South
- 3) The Assistant Commissioner, CGST, Division VIII, Ahmedabad South
- 4) The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South
(for uploading the OIA)

- 5) Guard File
- 6) PA file



